

## रजिस्ट्रेशन नोट

नकद भुगतान योजना का लक्ष्य एक ओर स्थानीय खपत को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना और दूसरी ओर लोगों के वित्तीय बोझ से राहत दिलाना है।

### पात्रता मापदंड

रजिस्टर करने वाले व्यक्ति को योजना के लिए पात्रता मापदंड पूरा करना चाहिए, उदाहरण के लिए, 31 मार्च 2021 को या उससे पहले रजिस्टर करने वाले की आयु 18 या अधिक है और वह हांगकांग का एक स्थायी निवासी है और उसके पास एक वैध हांगकांग परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिम्प्शन है।

### रजिस्ट्रेशन और भुगतान

पात्रता का मापदंड पूरा करने वाले रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्तियों को भुगतान प्राप्त होगा। व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर, पात्र व्यक्ति अपने स्थानीय हांगकांग डॉलर एक नाम वाले सेविंग्स/करंट एकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए बैंकों के जरिए या चेक से भुगतान के लिए हांगकांग पोस्ट के जरिए 21 जून 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

### रजिस्ट्रेशन के माध्यम

रजिस्टर करने वाले व्यक्ति भरे हुए रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित माध्यमों के जरिए जमा कर सकते हैं –

#### **बैंक**

#### इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन

1. e-बैंकिंग सर्विस या निर्दिष्ट बैंक के वेबसाइट, जहां उपलब्ध है।

#### पेपर फॉर्म

1. निर्दिष्ट बैंक में ड्रॉप बॉक्स के जरिए; या
2. निर्दिष्ट बैंक का नाम लिखकर एक लिफाफे में, और इसे “GPO Box 182020, Hong Kong” के पते पर भेजें। अगर हांगकांग में पोस्ट किया गया है तो लिफाफे पर स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं है।

भुगतान रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति के बैंक एकाउंट में की जाएगी।

#### हांगकांग पोस्ट

#### पेपर फॉर्म (ई-फॉर्म भी उपलब्ध)

1. ड्रॉप बॉक्स के जरिए किसी भी पोस्ट ऑफिस में; या

2. “GPO Box 182020, Hong Kong” के पते वाले एक लिफाफे में। अगर हांगकांग में पोस्ट किया गया है तो लिफाफे पर स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं है।

रजिस्ट्रेशन कराने वाले सफल व्यक्तियों को निर्दिष्ट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट या SMS के जरिए एक चेक कलेक्ट करने की सलाह दी जाएगी।

#### टाइमटेबल

रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार रजिस्टर कर सकते हैं –

	जन्म का वर्ष	रजिस्ट्रेशन	पेमेंट
इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन (बैंक)	<i>बैच करने की कोई व्यवस्था नहीं लेकिन पहले दो सप्ताह में रजिस्टर करने वाले व्यक्तियों को समान समय में भुगतान प्राप्त हो सकता है</i>	21 जून 2020 से	6 जुलाई 2020 से
पेपर फॉर्म (बैंक और हांगकांग पोस्ट)	जन्म 1955 में या पहले	21 जून 2020 से	15 जुलाई 2020 से
	जन्म 1956-1970	5 जुलाई 2020 से	29 जुलाई 2020 से
	जन्म 1971-2002	19 जुलाई 2020 से	12 अगस्त 2020 से

#### पूछताछ

पूछताछ के लिए, CHEER को कॉल करें।